

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना महली पुलिस द्वारा दविश के दौरान 01 वारण्टी नाम पता सोनू पुत्र ओमप्रकाश निवासी अचती थाना महली जनपद संतकबीरनगर को उ0नि0 श्री गयासुद्धीन खान मय हमराह कां0 प्रमोद मौर्य द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 22 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महली पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3304 द्वारा मारपीट / विवाद में घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3304 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत से इवेन्ट संख्या 07375 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद होने से एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को जिला चिकित्सालय संतकबीरनगर भेजवाया गया तथा दोनों पक्षों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना कोतवाली खलीलाबाद को सुपर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गयी , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ – मु0आरक्षी इन्द्रजीत भारती, आरक्षी शिवानन्द चौधरी।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 55 वाहनो से 38500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.02.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 55 वाहनों से 38500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 13-02-2021

श्रीमान जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर थाना समाधान दिवस पर पहुँच कर जनता की समस्याओं का किया गया निस्तारण

आज दिनांक 13-02-2021 को श्रीमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल व पुलिस अधीक्षक डॉ संतकबीरनगर महोदय द्वारा जनपद संतकबीरनगर के थाना कोतवाली खलीलाबाद पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया जहाँ पर फरियादियों से उनकी समस्याओं को मौके पर सुना गया तथा वहाँ मौजूद संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाये, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न की जाए जिससे आमजनमानस को बिना वजह परेशान होना पड़े। तत्पश्चात वहाँ मौजूद शिकायत पंजिका का निरीक्षण करते हुए निस्तारित हो चुकी शिकायतों के संबंध में फीडबैक भी लिया गया। इस अवसर पर राजस्व व पुलिस के अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।